

- **Bleeding During Pregnancy:-**

Bleeding during pregnancy is relatively common, particularly in the first trimester. While light spotting may not be a cause for concern, heavier bleeding can sometimes indicate a serious condition and should be evaluated by a doctor.

## FIRST TRIMESTER

Light bleeding or spotting may occur due to implantation or hormonal changes. Some common causes include:

- Implantation bleeding
- Miscarriage, often accompanied by cramps and passage of tissue
- Ectopic pregnancy, which may cause sharp abdominal pain and dizziness
- Molar pregnancy, a rare condition involving abnormal tissue growth

## SECOND AND THIRD TRIMESTERS

Bleeding later in pregnancy should be investigated promptly. Possible causes include:

- Placenta previa
- Placental abruption
- Preterm labor
- Uterine rupture (rare but serious)

## WHEN TO SEEK EMERGENCY CARE

Seek emergency attention if bleeding is accompanied by severe abdominal pain, dizziness, fainting, fever, or heavy bleeding that soaks a pad within 1–2 hours.

## IMPACT ON BABY

Bleeding may or may not affect the baby, depending on the underlying cause. Medical assessment is essential.

## WHAT TO DO IF YOU EXPERIENCE BLEEDING

- Contact your doctor immediately
- Wear a pad to monitor bleeding
- Avoid intercourse, tampons, and strenuous activity
- Undergo recommended tests or ultrasounds

Managing stress and attending regular prenatal checkups can help ensure a healthy pregnancy.

### गर्भविस्था के दौरान रक्तस्राव:-

गर्भवती रक्तस्राव के दौरान अत्यंत चिंतित हो सकती है, क्योंकि यह गर्भ के लिए खतरा हो सकता है। रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

गर्भवती रक्तस्राव के दौरान

गर्भवती रक्तस्राव के दौरान डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए:

- रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए
- रक्तस्राव के दौरान, गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए
- रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए
- रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए

गर्भवती रक्तस्राव के दौरान

गर्भवती रक्तस्राव के दौरान डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए: रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए:

- रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए
- रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए
- रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए
- रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए (रक्तस्राव के दौरान गर्भवती को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए)

[illegible][illegible]

Contact Number: 9424014113